



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 11.01.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना निघासन पुलिस द्वारा, चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 नफर अभियुक्तों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2023 को थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 25/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 का सफल अनावरण करते हुए 02 नफर अभियुक्तों 1.मुजीब पुत्र दुलारे 2.पालू उर्फ शाहिद पुत्र जुम्नन निवासीगण दुबहा थाना निघासन जनपद खीरी को ग्राम दुबहा स्थित कबाड़ की दुकान से लोहा चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मुजीब पुत्र दुलारे निवासी दुबहा थाना निघासन जनपद खीरी
2. पालू उर्फ शाहिद पुत्र जुम्नन निवासी दुबहा थाना निघासन जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद प्लास्टिक के बोरा में चोरी किया गया लोहे के सामान

थाना निघासन पुलिस द्वारा, सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 05 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 11.01.23 को थाना निघासन पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तों को ग्राम अदलाबाद मे ही गांव के पश्चिम छोर पर एक छप्पर के नीचे जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 1,910 रु0 नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना निघासन पर मु0अ0सं0 24/23 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. जसवंत पुत्र शंकर दयाल निवासी अदलाबाद थाना निघासन जनपद खीरी
2. मनोज पुत्र नन्द किशोर निवासी अदलाबाद थाना निघासन जनपद खीरी
3. अनुरुद्ध पुत्र नीमलाल निवासी अदलाबाद थाना निघासन जनपद खीरी
4. संदीप पुत्र जय प्रकाश निवासी अदलाबाद थाना निघासन जनपद खीरी
5. अनन्त पुत्र सम्भारी निवासी अदलाबाद थाना निघासन जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

52 अदद ताश के पत्ते
1,910 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सतीश द्विवेदी, (चौकी प्रभारी झण्डीराज) थाना निघासन
2. हे0का0 श्याम कुमार सिंह
3. हे0का0 राज कुमार सिंह
4. का0 हरेन्द्र सिंह
5. का0 मनीष कुमार
6. का0 पुष्पेन्द्र सिंह
7. का0 राजेश कुमार

थाना निघासन पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त परवेज पुत्र कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 11.01.23 को थाना निघासन पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त परवेज पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम दुबहा थाना निघासन जनपद खीरी को चीनी मिल के पास ग्राम दुबहा से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध मे थाना निघासन पर मु0अ0सं0 23/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

परवेज पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम दुबहा थाना निघासन जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 12 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 अनिल कुमार राजपूत, थाना निघासन
2. हे0का0 विकास पंवार
3. हे0का0 अतीश कुमार

ए0एच0टी0यू0 खीरी द्वारा, कवच योजना के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया

आज दिनांक 11.01.2023 को जनपद लखीमपुर खीरी के थाना गौरीफंटा क्षेत्र में कवच योजना के तहत भारत नेपाल सीमा पर लगी एसएसबी व एनजीओ और बॉर्डर के ग्राम सूडा बूडा ,सिंधिया, पिपरौला बनकटी बजाही के गावों में जाकर ,श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में ए0एच0टी0यू0 में नियुक्त प्रभारी निरीक्षक जैनेंद्र कुमार , का0 राजेश कुमार , महिला आरक्षी नीरज गिल, महिला आरक्षी सीमा सिंह चौहान ,थाना गौरीफंटा से उपनिरीक्षक श्री विनोद अवस्थी कांस्टेबल शिवम, यस यस बी कोमल यादव चाइल्ड लाइन इंद्र कुमार अवस्थी, अंजलि मौर्या मानव सेवा संस्थान महेश राणा काउंसलर देवेन्द्र ,रामप्रवेश, सपना, नाजिमा की संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रम बाल भिक्षावृत्ति व मानव तस्करी बचपन बचाओ अभियान बाल विवाह इंडो नेपाल सीमा पर बसे गांव सूडा बूडा ,सिंधिया, पिपरौला बनकटी बजाही के गांव में तथा बॉर्डर पर लगे एसएसबीके बीओपी पर लगे जवानों से और भारत नेपाल के एनजीओ से संपर्क सूत्र आदान वार्ता कर दूरभाष का आदान प्रदान व जन जागरूकता अभियान चलाया गया।

थाना फरधान पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 10.01.23 को थाना फरधान पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 920 रु0 नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना फरधान पर मु0अ0सं0 18/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अ0सं0 306/14 धारा 307/504/323/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र शिवपाल सिंह निवासी सिकटिया थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना पलिया पुलिस द्वारा, अ0सं0 121/22 धारा 452/302 भादवि में वारण्टी अभियुक्त मुसीर पुत्र पप्पू निवासी भटरिया थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 207 लीटर अवैध शराब बरामद कर 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **207 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **08 शराब भट्टी** बरामद कर **13 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।

